



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति-3.0” के अंतर्गत महोबा पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों में “चौपाल लगाकर” बालिकाओं एवं महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा मिशनशक्ति फेज 3.0 अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षकों/थाना प्रभारियों, थानों पर नियुक्त महिला बीट आरक्षियों सहित एन्टी रोमियों स्ववायड को अपने अपने थाना क्षेत्रों में बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूक, स्वाबलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2021 को नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा मुख्य बाजार एवं कोचिंग सेन्टर में जाकर तथा महिला रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी उ0नि0 नीलम यादव मय टीम के साथ थाना चरखारी के मोहल्ला रामनगर में जाकर “चौपाल लगाकर” मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गयी तथा “मिशन शक्ति” के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया एवं उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों **1090** वूमेन पावर लाइन, **181** महिला हेल्पलाइन, **108** एंबुलेंस सेवा, **1076** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, **112** पुलिस आपातकालीन सेवा, **1098** चाइल्ड लाइन, **102** स्वास्थ्य सेवा, **155260** साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई जहां पर कोई भी महिला/बालिका निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police